



लोक सभा सचिवालय
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध
संसद भवन, नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
Press and Public Relations Wing
Parliament House, New Delhi

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

लोकसभा अध्यक्ष ने आज मॉनसून सत्र के पहले दिन माननीय सदस्यों को संसद की कार्यवाही में उत्साह से भाग लेने के लिए बधाई दी।

...

“उत्पादकता के मामले में भी आज का दिन ऐतिहासिक रहा।”: लोकसभा अध्यक्ष

...

“सभी सांसदों कि जिम्मेदारी है कि वे देश की जनता के प्रति जवाबदेह रहें तथा जनता की अपेक्षा, एवं आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं।”: लोकसभा अध्यक्ष

...

नई दिल्ली 14 सितंबर 2020: लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज मॉनसून सत्र के पहले दिन कोरोना महामारी के चलते लिए गए निर्णयों का उल्लेख किया। कोरोना काल में उन्होंने माननीय सदस्यों को संसद की कार्यवाही में उत्साह से भाग लेने के लिए बधाई दी। श्री बिरला ने कहा कि यह हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती को प्रस्तुत करता है एवं हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिवृद्धि करता है।

श्री बिरला ने आगे कहा कि इस बार कोरोना महामारी के चलते सदन विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है। उन्होंने कहा, "माननीय सदस्यों को सामाजिक दूरी के नियमों के चलते, दर्शक दीर्घा में, राज्यसभा में बैठना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी 359 माननीय सदस्य सदन में उपस्थित रहे, सकारात्मक चर्चा हुई, आठ विधेयक इंद्रोइयूस किए गए और दो विधेयक पारित किए गए।"

उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि उत्पादकता के मामले में भी आज का दिन ऐतिहासिक रहा। सभी सदस्यों को देश के समक्ष अपनी बात रखने के पर्याप्त समय और अवसर

दिया गया। सदस्यों ने व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखी। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सदस्यों ने उपलब्ध समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया।

श्री बिरला ने हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न माननीय श्री प्रणब मुखर्जी का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद ने उन्हें आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को, उनके कार्यों को, और उनके बताए मार्ग को संसद के माध्यम से देश की जनता को एक सकारात्मक दिशा देने का काम किया।

श्री बिरला ने आशा व्यक्त की कि इस सत्र में, सदन के सभी माननीय सदस्यों का, सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी दलों के नेताओं का, एवं सभी माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा।

श्री बिरला ने आगे कहा कि सभी सांसदों कि जिम्मेदारी है कि वे देश की जनता के प्रति जवाबदेह रहें तथा जनता की अपेक्षा, एवं आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं।

**LOK SABHA SPEAKER CONGRATULATES MEMBERS FOR THEIR
ENTHUSIASTIC PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS OF THE HOUSE**

...

**“IT WAS A HISTORICAL DAY IN TERMS OF PRODUCTIVITY”: LOK SABHA
SPEAKER**

...

**‘IT IS RESPONSIBILITY OF ALL MPS TO REMAIN ANSWERABLE TO PEOPLE
AND WORK TOWARDS BRINGING THE HOPES AND ASPIRATIONS OF
PEOPLE TO NOTICE OF GOVERNMENT’: LOK SABHA SPEAKER**

New Delhi 14 September 2020: On the first day of the Monsoon Session of Parliament, Lok Sabha Speaker Shri Om Birla mentioned about the decisions taken in view of the prevailing Corona pandemic. He congratulated the Members for their enthusiastic participation in the proceedings of the House, at this time. Shri Birla said that it depicts the strengths of our democratic institutions and works towards the growth of the democratic values.

Observing that the Session is being held under very grave circumstances, Shri Birla said "Owing to the social distancing norms, Members have to sit in the Public Galleries and Rajya Sabha Chamber, but despite this, three hundred and

fifty-nine MPs participated in the proceedings of the House. Constructive discussions were held and eight Bills were introduced, while two Bills were passed by the House. "

He expressed satisfaction that today it was a historical day in terms of productivity. All Members were given ample time and opportunity to present their views on the floor of the House. Members spoke in an orderly manner and made the best use of the available time keeping in view the circumstances.

Recalling about former President Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee, who passed away recently, Shri Birla said that the House today paid its heartfelt condolences to Shri Mukherjee and his thoughts and actions have provided a positive direction to the public of our country.

Shri Birla also hoped that Parliament would function smoothly with the active support and cooperation of all MPs, Leader of the House Hon'ble Prime Minister, Leaders of all Political Parties and Members of the Council of Ministers.

Shri Birla remarked that it is the responsibility of all MPs to remain answerable to the people of the country and work towards bringing the hopes and aspirations of people to the notice of the Government through this House.